



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1266]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2005/अग्रहायण 15, 1927

No. 1266]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2005/AGRAHAYANA 15, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1717(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 113 (अ), 114 (अ) तारीख 01 फरवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), 01 फरवरी, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के 426.661 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मदुरई सेक्शन) से 41.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखण्ड, जिसमें बाईपास भी शामिल है, का निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुसूचन, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार “दि हिन्दू” और “दिनाथॉथी” दोनों में तारीख 04 मार्च, 2005 को प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उनका निपटारा कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के 426.661 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मदुरई सेक्शन) से 41.000 कि.मी.(मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखण्ड के अंतर्गत अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि ।

जिला: मदुरई

संख्या	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूस्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मदुरई दक्षिण	थोपुर	66/2	शुष्क	निजी	876	तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड
			71/14	शुष्क	निजी	10	प्रियदर्शनी पत्नी मोहन
			71/7	शुष्क	निजी	637	पलानी पुत्र मुथुवीराप्पा पिल्लै
			71/9ए1	शुष्क	निजी	72	राजिनी पत्नी प्रभाकरन
			71/9बी1	शुष्क	निजी	240	प्रियदर्शनी पत्नी मोहन
			73/8बी1	शुष्क	निजी	900	मुथानाथम-1, विशालक्षी अम्माल-2, पलानी पुत्र मुथुवीराप्पा पिल्लै-3 राजेन्द्रन पुत्र सुबैया वेलर-4 शांता देवी पुत्तम् अझागुराजन-5 गुरुमूर्ति पुत्र कृष्णासामी नायडू-6
			73/10	शुष्क	निजी	250	नागालक्ष्मी, पत्नी मनीमुथु
			74/6	शुष्क	निजी	100	पेचैम्मल-1, कुरुवाम्मल-2
			74/8बी	शुष्क	निजी	500	कोन्डासामी नायडू-1 राजेन्द्रन पुत्र सुबैया
			81/5ए	शुष्क	निजी	500	एम. शंकरालिंगम पिल्लै-1, जी.देवी-2, जी.इन्दिरासानी-3, मनी पुत्र परमसामी थेवर-4, गणेशन पुत्र सुन्डा थेवर-5
			81/5ए	शुष्क	निजी	700	एम. शंकरालिंगम पिल्लै-1, जी.देवी-2, जी.इन्दिरासानी-3, मनी पुत्र परमसामी थेवर-4, गणेशन पुत्र सुन्डा थेवर-5
			81/7	शुष्क	निजी	135	पावर्तीम्मल पत्नी पन्डी चेट्टियार
			81/8	शुष्क	निजी	82	सरोजा, प्रभारी महात्मा गाँधी महिला सहकारी केन्द्र
			81/9	शुष्क	निजी	50	मारुथाप्पन पुत्र रामानाथन
			82/4	शुष्क	निजी	1400	पार्वतीम्मल पत्नी पलानीसामी नायर 1 थेनाम्मल पत्नी रजनगा थेवर-2
			82/6ए	शुष्क	निजी	300	एन. मूनेयन्डी-1, चिन्नाचम्बन-2 पाप्पा पत्नी सुबैया नायडू-3 पाक्कासामी पुत्र इरुलाप्पा थेवर-4, करुप्पाई पत्नी चिन्नासामी-5, राजू पुत्र मुथुकरुप्पा थेवर-6

1	2	3	4	5	6	7	8
			82/6	शुष्क	निजी	300	पुष्पम अम्मल पत्नी राजू सेरवे-7 इनामल हुसैन पुत्र रहमतुल्ला-8, अब्दुल अब्बास, पुत्र रहामाधुला-9 पंचावर्णम पत्नी सिवासामी-10
			82/12ए	शुष्क	निजी	500	भास्कर कोन्डा रेड्डी, पुत्र मुथैया कोन्डा रेड्डी
			82/12बी	शुष्क	निजी	600	मुथैया कोन्डा रेड्डी पुत्र चेन्नैया कोन्डा रेड्डी
			84/2एफ	शुष्क	निजी	232	तमिल नाडु हाउसिंग बोर्ड
			84/4	शुष्क	निजी	500	टी.एन.सी.एस.सी. मालगोदाम
			84/5	शुष्क	निजी	150	महा सचिव, डी.एम.के
			89/4	शुष्क	निजी	50	तमिल नाडु हाउसिंग बोर्ड
			89/4	शुष्क	निजी	950	तमिल नाडु हाउसिंग बोर्ड
			89/10	शुष्क	निजी	1600	तमिल नाडु हाउसिंग बोर्ड
			89/8ए	शुष्क	निजी	180	तमिल नाडु हाउसिंग बोर्ड
			89/11	शुष्क	निजी	2000	तमिल नाडु हाउसिंग बोर्ड
			89/8बी	शुष्क	निजी	200	स्वामी विमलंथर
			89/9ए	शुष्क	निजी	250	स्वामी विमलंथर
			95/2	शुष्क	निजी	1480	टी.एस.सुब्रमण्यन, शिवनन्दा चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र
			95/3	शुष्क	निजी	340	स्वामी विमलंथर अध्यक्ष, शिवनन्दा थाबोवनम
			96/1ए1	शुष्क	निजी	700	यू.वी. शॉ-1, धामायन्डी पत्नी यू.वी. शॉ-2 महेश कुमार पुत्र यू.वी. शॉ-3
			96/2ए2बी2	शुष्क	निजी	400	पद्मनाभन पुत्र नारायणसामी नायडू-1 पन्डी पुत्र पेरियानन-2
			96/2ए2बी 2	शुष्क	निजी	300	पद्मनाभन पुत्र नारायणसामी नायडू-1 पन्डी पुत्र पेरियानन-2
			96/2ए2ए	शुष्क	निजी	150	नीलाकंडन पुत्र नारसीम्न
			96/2बी	शुष्क	निजी	300	मुमताज बेगम पत्नी अमीर जौन
			96/3बी	शुष्क	निजी	1880	सुब्रमण्यम पुत्र माल्या चेट्टियार
			97/1ए1	शुष्क	निजी	208	जगदीशन पुत्र रमैया नादर
			97/2	शुष्क	निजी	1500	वैद्यनाथ अय्यर-1, कन्दासामी पुत्र करुप्पा थेवर-2 धनलक्ष्मी पत्नी कन्दासामी-3, विजयालक्ष्मी पत्नी शिवनन्दी थेवर-4, जगदीशन पुत्र के.रमैया-5, पंचावर्णम पत्नी मुरुगेशन-6, अन्नामायील पत्नी सुब्रमण्यन-7 ए.एम. सुब्रमण्यम चेट्टियार पुत्र माल्या चेट्टियार-8, राजाम्मल पत्नी ए.एम. सुब्रमण्यम चेट्टियार-9
			97/3ए	शुष्क	निजी	50	जगदीशन पुत्र रमैया नादर
			99/1ए	शुष्क	निजी	1630	नाट्टू चेक्कू तेल निर्मातो समिति
			99/1बी 1	शुष्क	निजी	1000	एच.एस.मान्डू सैत-1 आनंदाराज पुत्र अरुमुगासामी नादर-2
			99/2बी 1	शुष्क	निजी	1620	एच.एस.मुन्डा सैत
			99/2बी 2	शुष्क	निजी	550	पी. सीतारमन पुत्र पेथा पेरुमल
			100/1ए1	शुष्क	निजी	50	काथीजा बाई इस्माईल पत्न मुन्डा सैत
			100/1ए2	शुष्क	निजी	200	मुथुमारी पत्नी मुरुगेशन
			100/1ए3	शुष्क	निजी	400	काथीजा बाई इस्माईल पत्न मुन्डा सैत

1	2	3	4	5	6	7	8
			100/1बी	शुष्क	निजी	140	सी. पोनराज पुत्र वेल्ले
			100/1सी	शुष्क	निजी	985	विजया पत्नी संगरा लिंगम पेटिम्ल पत्नी नालासुन्धान
			100/9	शुष्क	निजी	200	बालासुन्दरम पुत्र सुबैया
			100/2ए2	शुष्क	निजी	935	काथीजा बाई इस्माईल पत्नी मुन्डा सैट
			100/16	शुष्क	निजी	350	कै. राजामुरुगन
			100/2बी	शुष्क	निजी	50	विजया पत्नी संगरा लिंगम
			100/17	शुष्क	निजी	300	काथीजा बाई इस्माईल पत्नी मुन्डा सैट
			100/18	शुष्क	निजी	50	कै. राजामुरुगन
			100/7	शुष्क	निजी	250	कै.एस.अरुणा पत्नी सुदर्शन
			100/10ए	शुष्क	निजी	68	काथीजा बाई इस्माईल पत्नी मुन्डा सैट
			100/11	शुष्क	निजी	500	एस.ए. सन्यासीराज-1, एस.ए. रविकुमार-2, पुत्र एस.अन्नामलैचामी
			100/12	शुष्क	निजी	150	काथीजा बाई इस्माईल पत्नी मुन्डा सैट
			100/21	शुष्क	निजी	150	काथीजा बाई इस्माईल पत्नी मुन्डा सैट
			100/22	शुष्क	निजी	100	जगदीशन पुत्र सूसेप्पा नादर
			64	शुष्क	निजी	552	तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड
			65/1ए	शुष्क	निजी	4750	तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड
			65/2सी	शुष्क	निजी	4000	तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड
			66/1ए	नम	निजी	1367	रासु-1, मुथैया-2, महादेवन, पुत्र दुरैचामी 3 रामानाथन पुत्र कृष्णा मूर्ति अय्यर-4, जी. रमानी पुत्र कै.एम. गणेशन-5
			66/4बी	नम	निजी	1004	रासु-1, मुथैया-2, महादेवन, पुत्र दुरैचामी थेवर -3, गुणाशेखरन पुत्र अनंत कृष्णन-4
			66/5ए1	नम	निजी	2380	रासु पुत्र मुथैया-1, कै.कृष्णन पुत्र कृष्णासामी अय्यर-2, सुब्रमण्यम-3 जगसिन्धानु अम्मला पत्नी एण्टोनी राजू-4
			66/5ए2	नम	निजी	250	ए.दामोदरन
			66/5बी	नम	निजी	624	महादेवन पुत्र मुथैया थेवर
			66/5सी	नम	निजी	178	रासु पुत्र मुथैया
			66/5डी	नम	निजी	650	महादेवन पुत्र मुथैया थेवर
			66/4सी	नम	निजी	1150	रासु पुत्र दुरैचामी
			66/6	नम	निजी	95	रासु पुत्र मुथैया-1, कै.कृष्णन पुत्र कृष्णासामी अय्यर-2, सुब्रमण्यम-3 जगसिन्धानु अम्मला पत्नी एण्टोनी राजू-4
			66/7	नम	निजी	200	सुजाता दामोदरन पत्नी दामोदरन
			70/3ए1	नम	निजी	6924	महादेवन पुत्र दुरैचामी । चन्द्रशेखरन पुत्र शंकरन पिल्लै-2, सीतारामन पुत्र दुरैसामी इय्यानगर-3, राजालक्ष्मी पत्नी राजेन्द्रन -4
			70/3ए1	नम	निजी	26	महादेवन पुत्र दुरैचामी । चन्द्रशेखरन पुत्र शंकरन पिल्लै-2, सीतारामन पुत्र दुरैसामी इय्यानगर-3, राजालक्ष्मी पत्नी राजेन्द्रन -4
			70/3बी	नम	निजी	200	ई.वी.अन्ना पूर्णा
			70/4ए	नम	निजी	200	ई.वी.अन्ना पूर्णा
			70/4बी1	नम	निजी	800	मुथैया पुत्र दुरैचामी-1, रामसुबैया पुत्र रामासामी-2
			70/4बी 3	नम	निजी	80	महादेवन पुत्र दुरैचामी
			70/7ए	नम	निजी	1650	मुथैया-1, मुथुकन्नाग52, परामन-3
			70/10	नम	निजी	250	रेणुका देवी पत्नी मारीमुथु
			70/11	नम	निजी	450	रेणुका देवी पत्नी मारीमुथु
			71/8ए1	नम	निजी	260	मनोकारी पत्नी कालीमुथु
			70/12	नम	निजी	186	अवयस्क रामासुब्रमण्यन
2		मिलायूर पहला टुकड़ा	307/1ए1	शुष्क	निजी	200	कै.कार्तिकेयचामी, पुत्र कन्दासामी अम्बालम

1	2	3	4	5	6	7	8
3	थिरुमंगलम	कप्पलूर	118/5बी1ए	शुष्क	निजी	80	एम.कालियाम्मल पत्नी मुरुगेशन 2. दमयन्ती 3. मोकैया थेवर 4. लक्ष्मी
			118/12	शुष्क	निजी	34	जी. सुरेश पुत्र गोविंदन
			118/5बी1सी	शुष्क	निजी	48	जी.पिलावदियन पुत्र गुणामलै नादर
			118/5बी1बी	शुष्क	निजी	109	आर. सैबगम, पत्नी अरुमुगम
			118/5बी1डी	शुष्क	निजी	6	आर.जयंती पत्नी रवि
			118/5बी 2	शुष्क	निजी	16	एस. कालिदास
			118/10	शुष्क	निजी	50	एम जयाराजन पुत्र मयंदी थेवर
			119/3ए1ए	शुष्क	निजी	330	1.एन. सोक्काया नयाक्कर पुत्र नगमा नयाक्कर अय्यान नयाक्कर पुत्र 2.अलगरसामी 3. रामासामी 4. अथी नारायणन 5. वैकटसामी 6. नागासामी 7. परमशिवम 8. नारायणासामी पुत्र नागासामी नयाक्कर 9. रासु पुत्र चिन्नाथाम्मी थेवर 10. करुपाये पत्नी मरियाप्पन 11. मुरुगेशन पुत्र सुब्रमण्यन 12. रामु पुत्र सोक्काया नायाक्कर 13. पंचायत बोर्ड कप्पालूर
			119/3बी1	शुष्क	निजी	580	के.एन.के. कार्तिक पुत्र कृष्णन
			119/3बी2	शुष्क	निजी	670	के.एन.के. कार्तिक पुत्र कृष्णन
			119/3बी 3	शुष्क	निजी	56	1. के.एन.के. कार्तिक 2. के.एन.के. गणेश 3. के.आर.शान्ति 4. एम.राधिनम पिल्लै पुत्र महालिंगम पिल्लै 5. पाण्डियाम्मल पत्नी रामु पिल्लै
			119/3बी4	शुष्क	निजी	480	के.आर. शान्ति, पत्नी रमेश
			119/4ए	शुष्क	निजी	673	मद्रास फ्लॉवर मिल्स लिमिटेड
			119/4बी	शुष्क	निजी	613	मद्रास फ्लॉवर मिल्स लिमिटेड
			119/5	शुष्क	निजी	450	1) वी. कालीदोस पुत्र वीरासामी 2) मीना पुत्री कालीदोस
			120/6ए	शुष्क	निजी	217	के.आर. शान्ति, पत्नी रमेश
			120/6बी	शुष्क	निजी	345	1. कामु अम्मल पत्नी के.रामकृष्णन थिरुमेनी थेवर सन्त 2. टी. शिवनाथन 3. शिवलिंगम 4. टी. कान्नन 5. थिरु. राजेन्द्रन पुत्र अक्कैया नायडू 6. पंचायत बोर्ड कप्पालूर
			120/7ए	शुष्क	निजी	322	1. थिरु. राजेन्द्रन पुत्र अक्कैया नायडू 2. थिरु कोंडल नायडू पुत्र कोंडल नायडू 3. पंचायत बोर्ड, कप्पालूर
			120/7बी	शुष्क	निजी	153	सी. जयारामन पुत्र चिन्ना थेवर
			120/7सी	शुष्क	निजी	165	सी धर्मराज पुत्र सिंगा थेवर

1	2	3	4	5	6	7	8
			121/1ए	शुष्क	निजी	245	1. श्रीमती जी. अमुधा पत्नी गणाशेखरन 2. थिरु. एम. इन्धिरा पत्नी ए. एन. एन. महेशबाबू 3. थिरु कौडल नायडू पुत्र कौडल नायडू 4. पंचायत बोर्ड कम्पालूर
			121/1बी	शुष्क	निजी	370	1. थिरुपति पुत्र अक्कैयासामी नायडू 2. एस. ए. के. अन्डावर
			121/1सी	शुष्क	निजी	940	1. श्रीमती के. आर. कामू अम्माल पत्नी के. रामाकृष्णन 2. श्रीमती जी. अमुधा पत्नी गणाशेखरन 3. थिरु. एम. इन्धिरा पत्नी ए. एन. एन. महेशबाबू
			121/2	शुष्क	निजी	250	1. के. सुन्दरामहल्लिगम 2. थंगैया @ सुन्दरालिगम पिल्लै 3. नागरथिनम 4. ए. आर. पी. रंगासामी नायडू 5. के. राजा
4		कुदरई वनीकुलम	1/2 बी 5	नम	निजी	816	1. शिवासामी थेवर पुत्र (स्व.) शिवनन्दिथेवर 2. अलागुमलै पुत्र (स्व.) शिवनन्दिथेवर 3. वेलुचामी पुत्र (स्व.) शिवनन्दिथेवर 4. अलगाम्मलै पुत्री (स्व.) शिवनन्दिथेवर 5. वेलुथै पुत्री (स्व.) शिवनन्दिथेवर
5		पलक्कापुडपत्ती	2/1ए	शुष्क	निजी	1903	उषा दियावेल पत्नी दियावेल
			2/1 बी	शुष्क	निजी	73	1. कार्यपालक अधिकारी, मन्डुरै ऑटोमोबाईल कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज 2. आयुक्त, पंचायत यूनियन, तिरुमंगलम
			2/2	शुष्क	निजी	355	बाला कृष्णा पुत्र पेरियानन नादर
			11	शुष्क	निजी	637	त्यागराजोर मिल्ल मैनेजमेंट
			15/1 सी	शुष्क	निजी	812	त्यागराजोर मिल्ल मैनेजमेंट
			15/3	शुष्क	निजी	550	त्यागराजोर मिल्ल मैनेजमेंट
			16/1	शुष्क	निजी	4450	त्यागराजोर मिल्ल मैनेजमेंट
			19/1ए	शुष्क	निजी	900	1. रामाराथिनम पुत्र कुलनथईवेल नादर 2. मूर्थयराजन पुत्र कुलनथईवेल नादर 3. विजयन पुत्र कुलनथईवेल नादर 4. रमेश पुत्र कुलनथईवेल नादर 5. बूचीराजन पुत्र कुलनथईवेल नादर
			19/1सी1	शुष्क	निजी	2450	1. रामाराथिनम पुत्र कुलनथईवेल नादर 2. मूर्थयराजन पुत्र कुलनथईवेल नादर

1	2	3	4	5	6	7	8
							3. विजयन पुत्र कुलनथईवेल नादर 4. रमेश पुत्र कुलनथईवेल नादर 5. बूचीराजन पुत्र कुलनथईवेल नादर 6. दि इंडिया फाइनेंसियल एसोसिएशन ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट धर्मपुरी 7. एम.ए.पी बोस पुत्र पेरिया कुरुप्पा थेवर
			19/1सी 2	शुष्क	निजी	100	पाउलराज पुत्र सीनियेवर
			19/3ए1	शुष्क	निजी	250	बूबाला सुब्रमणियम पुत्र सौदरापांडी नादर
			19/3ए2	शुष्क	निजी	550	1. बूबाला सुब्रमणियम पुत्र सौदरापांडी नादर 2. नारायणसामी नायडू पुत्र रंगासामी नायडू 3. जयंती पत्नी जेयाराज
			19/4ए	शुष्क	निजी	150	सुंदरभारती पुत्र नारायणन
			19/4 बी	शुष्क	निजी	1350	विशगन (संस्कार-बक्किराथिअम्मल)
			19/8	शुष्क	निजी	250	1. सेबुगा पेरुमल पुत्र पोन्नासामी 2. सिंगाराज पुत्र सेबुगा पेरुमल 3. राजेश कन्ना पुत्र सेबुगा पेरुमल
			19/9	शुष्क	निजी	750	पट्टुमणी पुत्र पेरिया सामी नादर
			19/10	शुष्क	निजी	600	1. पट्टुमणी पुत्र पेरिया सामी नादर 2. पंचवरनम पत्नी पट्टुमणी

[फा. सं. भाराप्र/तक./एलए/एमके/1/2003]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2005

S.O. 1717(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.113(E),114(E), dated the 1st February, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section(ii), dated the 1st February, 2005 and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to that notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highways No.7 including the bypass in the stretch from km 426.661

(Bangalore – Salem – Madurai Section) to km 41.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) in Madurai District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification was published in the "The Hindu" and "Thinathanthi", both dated the 4th March, 2005;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land with or without structure, being acquired falling within the land stretch on National Highway No.7 from km 426.661 (Bangalore – Salem – Madurai Section) to km 41.00 (Madurai – Kanniyakumari) in the State of Tamil Nadu.

DISTRICT : MADURAI.

Serial Number	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Nature of Land	Type of Land	Area of land in Square Meters	Name of the Owners
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Madurai South	Thoppur	66/2	Dry	Private	876	Tamil Nadu Housing Board
			71/14	Dry	Private	10	Priyadharshini W/o. Mohan.
			71/7	Dry	Private	637	Palani S/o. Muthu Veerappa Pillai.
			71/9A1	Dry	Private	72	Rajini W/o. Prabhakaran
			71/9B1	Dry	Private	240	Priya dharshini W/o. Mohan
			73/8B1	Dry	Private	900	Muthanadham-1, Vishalakshi Ammal-2, Palani S/o. Muthu Verappa Pillai-3 Rajendran, S/o. Subbiah velar-4 Shantha Devi W/o. Azhagurajan- 5 Gurumoorthy S/o. Krishnasamy Naidu-6
			73/10	Dry	Private	250	Nagalakshmi, W/o. Manimuthu

1	2	3	4	5	6	7	8
			74/6	Dry	Private	100	Petchiammal-1, Kuruvammal-2
			74/8B	Dry	Private	500	Kondasamy Naidu-1 Rajendran S/o. Subbiah -2.
			81/5A	Dry	Private	500	M.Sankaralingam Pillai-1, G.Devi-2, G.Indhirani-3, Mani, S/o.Paramasamy Thevar- 4,Ganesan S/o. Sunda Thevar-5
			81/5A	Dry	Private	700	M.Sankaralingam Pillai-1, G.Devi-2, G.Indhirani-3, Mani, S/o.Paramasamy Thevar-4, Ganesan S/o. Sunda Thevar-5
			81/7	Dry	Private	135	Parvathiammal W/o. Pandi Chettiyar
			81/8	Dry	Private	82	Saroja, Incharge of Mahatmagandhi Womens Co-operative Centre.
			81/9	Dry	Private	50	Maruthappan S/o. Ramanathan
			82/4	Dry	Private	1400	Parvathiammal W/o.Palanisamy Nadar-1 Thenammal W/o. Rajanga Thevar-2
			82/6A	Dry	Private	300	N.Muniyandi-1, Chinnachamban-2 Pappa W/o. Subbiah Naidu-3 Mokkasamy S/o. Irulappa Thevar-4, Karuppayee W/o. Chinnasamy-5, Raju, S/o. Muthukaruppa Thevar-6 Pushpam Ammal W/o. Raju Servai-7, Inamal Hussain S/o. Rahamathulla-8, Abdul Abbas, S/o. Rahamathulla-9 Panchavarnam W/o. Sivasami-10
			82/12A	Dry	Private	500	Baskara Konda Reddi, S/o. Muthaiah konda Reddi.
			82/12B	Dry	Private	600	Muthaiah Konda Reddi. S/o. Chenniah konda Reddi
			84/2F	Dry	Private	232	Tamil Nadu Housing Board.
			84/4	Dry	Private	500	TNCSC. Ware House
			84/5	Dry	Private	150	General Secretary, D.M.K.
			89/4	Dry	Private	50	Tamil Nadu Housing Board
			89/4	Dry	Private	950	Tamil Nadu Housing Board
			89/10	Dry	Private	1600	Tamil Nadu Housing Board
			89/8A	Dry	Private	180	Tamil Nadu Housing Board
			89/11	Dry	Private	2000	Tamil Nadu Housing Board
			89/8B	Dry	Private	200	Swami Vimalanthar
			89/9A	Dry	Private	250	Swami Vimalanthar
			95/2	Dry	Private	1480	T.S.Subramaniyan, Sivanandha Hospital and Research Centre.

1	2	3	4	5	6	7	8
			95/3	Dry	Private	340	Swami Vimalanandar President, Sivanandha Thabovanam
			96/1A1	Dry	Private	700	U.V. Shaw-1, Dhamayandhi W/o. U.V. Shaw-2 Mahesh Kumar S/o. U.V. Shaw-3
			96/2A2B2	Dry	Private	400	Padmanabhan S/o. Naryanasamy Naidu-1 Pandi S/o. Periyanan-2
			96/2A2B2	Dry	Private	300	Padmanabhan S/o. Naryanasamy Naidu-1 Pandi S/o. Periyanan-2
			96/2A2A	Dry	Private	150	Neelakandan S/o. Narsimman
			96/2B	Dry	Private	300	Mumthaj Begam W/o. Ameer John
			96/3B	Dry	Private	1880	Subramaniam S/o. Mallaiya Chettiyar
			97/1A1	Dry	Private	208	Jegadesan S/o. Ramaiah Nadar
			97/2	Dry	Private	1500	Vaithyanatha Iyyar-1, Kandasamy S/o. Karuppa Thevar-2 Dhanalakshmi W/o. Kandasamy-3, Vijaiyalakshmi D/o. Sivanandi Thevar-4, Jegadesan S/o. K. Ramaiah-5, Panchavarnam W/o. Murugesan-6, Annamayil W/o. Subramanian-7, A.M. Subramaniam Chettiyar, S/o. Malliya Chettiyar -8, Rajammal W/o. A.M. Subramaniam Chettiyar-9
			97/3A	Dry	Private	50	Jegadesan S/o. Ramaiah Nadar
			99/1A	Dry	Private	1630	Nattu Chekku Oil Producers Association
			99/1B1	Dry	Private	1000	H.S.Munda Sait-1 Anandaraj S/o. Arumugasamy Nadar-2
			99/2B1	Dry	Private	1620	H.S.Munda Sait
			99/2B2	Dry	Private	550	P.Seetharaman S/o. Petha Perumal.
			100/1A1	Dry	Private	50	Kathija Bai Ismail W/o. Munda Sait
			100/1A2	Dry	Private	200	Muthumari W/o. Murugesan
			100/1A3	Dry	Private	400	Kathija Bai Ismail W/o. Munda Sait
			100/1B	Dry	Private	140	C.Ponraj S/o. Chelliah.
			100/1C	Dry	Private	985	Vijaya W/o. Sangara lingam Patchiammal W/o. Nallasundhan
			100/9	Dry	Private	200	Balasundram S/o. Subbiah
			100/2A2	Dry	Private	935	Kathija Bai Ismail W/o. Munda Sait

1	2	3	4	5	6	7	8
			100/16	Dry	Private	350	K.Rajamurugan
			100/2B	Dry	Private	50	Vijaya W/o. Sangara lingam
			100/17	Dry	Private	300	Kathija Bai Ismail W/o. Munda Sait
			100/18	Dry	Private	50	K.Rajamurugan
			100/7	Dry	Private	250	K.S.Aruna W/o. Sudharsan
			100/10A	Dry	Private	68	Kathija Bai Ismail W/o. Munda Sait
			100/11	Dry	Private	500	S.A.Sannasiraj-1, S.A.Ravikumar-2 S/o. S.Annamalaichamy.
			100/12	Dry	Private	150	Kathija Bai Ismail W/o. Munda Sait
			100/21	Dry	Private	150	Kathija Bai Ismail W/o. Munda Sait
			100/22	Dry	Private	100	Jegadesan S/o. Soosaiappa Nadar
			64	Dry	Private	552	Tamil Nadu Housing Board
			65/1A	Dry	Private	4750	Tamil Nadu Housing Board
			65/2C	Dry	Private	4000	Tamil Nadu Housing Board
			66/1A	Wet	Private	1367	Rasu-1, Muthaih-2, Mahadevan, S/o. Duraichamy 3R amanathan S/o. Krishna Moorthy Iyyer-4, G. Ramani S/o. K.M.Ganesan-5
			66/4B	Wet	Private	1004	Rasu-1, Muthaih-2, Mahadevan, S/o. Duraichamy Thevar -3, Gunasekaran S/o. Anantha Krishnan-4.
			66/5A1	Wet	Private	2380	Raju S/o. Muthiah-1, K.Krishnan S/o. Krishnasamy Iyyar -2, Subramaniam-3 Jegasinthanu Ammal W/o. Antony Raju-4.
			66/5A2	Wet	Private	250	A.Dhamodaran
			66/5B	Wet	Private	624	Mahadevan S/o. Muthaiah Thevar
			66/5C	Wet	Private	178	Raju S/o. Muthaiah
			66/5D	Wet	Private	650	Mahadevan S/o. Muthaiah Thevar
			66/4C	Wet	Private	1150	Raju S/o. Duraichamy
			66/6	Wet	Private	95	Raju S/o. Muthiah-1, K.Krishnan S/o. Krishnasamy Iyyar -2, Subramaniam-3 Jegasinthanu Ammal W/o. Antony Raju-4.
			66/7	Wet	Private	200	Sujatha Dhamodharan W/o. Dhamodharan.
			70/3A1	Wet	Private	6924	Mahadevan S/o. Duraichamy 1 Chandrasekaran S/o. Sankaran Pillai-2, Seetharaman S/o. Duraisamy Iyyangar -3, Rajalakshmi W/o. Rajendran4

1	2	3	4	5	6	7	8
			70/3A1	Wet	Private	26	Mahadevan S/o. Duraichamy 1, Chandrasekaran S/o. Sankaran Pillai-2, Seetharaman S/o. Duraisamy Iyyangar -3, Rajalakshmi W/o. Rajendran-4
			70/3B	Wet	Private	200	E. V. Anna poorna
			70/4A	Wet	Private	200	E. V. Anna pooma
			70/4B1	Wet	Private	800	Muthaiah S/o. Duraichamy -1, Ramasubbiah S/o. Ramasamy 2
			70/4B3	Wet	Private	80	Mahadevan S/o. Duraichamy
			70/7A	Wet	Private	1650	Muthaih -1, MuthuKannan-2, Paraman-3.
			70/10	Wet	Private	250	Renuka Devi W/o. Marimuthu
			70/11	Wet	Private	450	Renuka Devi W/o. Marimuthu
			71/8A1	Wet	Private	260	Manokari W/o. Kalimuthu
			70/12	Wet	Private	186	Minor Ramasubramanian.
2		Nilayur 1 st Bit	307/1A1	Dry	Private	200	K. Karthigaichamy, S/o. Kandhasamy Ambalam
3	Thirumangalam	Kappalur	118/5B1A	Dry	Private	80	M. Kaliyammal W/o. Murugesan 2. Dhamayanthi 3. Mokkaiya Thevar 4. Lakshmi
			118/12	Dry	Private	34	G. Suresh, S/o. Govindhan
			118/5B1C	Dry	Private	48	G. Pilavadiyan S/o. Gunamalai Nadar
			118/5B1B	Dry	Private	109	R. Senbagam, W/o. Arumugam
			118/5B1D	Dry	Private	6	R. Jeyanthi, W/o. Ravi
			118/5B2	Dry	Private	16	S. Kalaidoss, S/o. Subramanian
			118/10	Dry	Private	50	M. Jeyaraman S/o. Mayandi Thevar
			119/3A1A	Dry	Private	330	1. N. Sokkaya Nayakkar S/o. Nagama Nayakkar Ayyanan Nayakkar Sons 2. Alagarsamy 3. Ramasamy 4. Athi Narayanan 5. Venkitusamy 6. Nagasamy 7. Paramasivam 8. Narayanasamy S/o. Nagasamy Nayakkar 9. Rasu S/o. Chinnathambi Thevar 10. Karuppaye W/o. Mariyappan 11. Murugesan S/o. Subbramanian 12. Ramu S/o. Sokkaya Nayakkar 13. Panchayat Board, Kappalur.
			119/3B1	Dry	Private	580	K. N. K. Karthik S/o. Krishnan
			119/3B2	Dry	Private	670	K. N. K. Ganesh S/o. Krishnan

1	2	3	4	5	6	7	8
			119/3B3	Dry	Private	56	1.K.N.K.Karthik 2. K.N.K. Ganesh 3. K.R. Shanthi 4. M.Rathinam Pillai S/o.Mahalingam Pillai 5.Pandiarnnal W/o. Ramu Pillai
			119/3B4	Dry	Private	480	K.R. Shanthi, W/o. Ramesh
			119/4A	Dry	Private	673	Madras Flower Mills Limited
			119/4B	Dry	Private	613	Madras Flower Mills Limited
			119/5	Dry	Private	450	1)V. Kalidoss, S/o. Veerasamy 2) Meena, D/o. Kalidoss
			120/6A	Dry	Private	217	K.R. Shanthi, W/o. Ramesh
			120/6B	Dry	Private	345	1. Kamu Ammal W/o. K.Ramakrishnan Thirumeni Thevar Sons 2.T.Sivanathan 3.Sivalingam 4.T.Kannan 5.Thiru.Rajendran S/o. Akkaiya Nayudu 6.Panchayat Board, Kappalur
			120/7A	Dry	Private	322	1.Thiru. Rajendran S/o Akkaiya Nayudu 2.Thiru.Kondal Nayudu S/o. Kondal Nayudu 3.Panchayat Board, Kappalur
			120/7B	Dry	Private	153	C.Jeyaraman S/o. Chinna Thevar
			120/7C	Dry	Private	165	C.Dharmaraj S/o. Singa Thevar
			121/1A	Dry	Private	245	1.Tmt.G.Amutha W/o. Ganasekaran 2.Thiru.M.Inthira W/o. A.N.N.Mahesbabu 3.Thiru.Kondal Nayudu S/o. Kondal Nayudu 4.Panchayat Board, Kappalur
			121/1B	Dry	Private	370	1.Thirupathi S/o. Akkaiyasamy Nayudu 2. S.A.K.Andavar
			121/1C	Dry	Private	940	1.Tmt.K.R.Kamu Ammal W/o. K. Ramakrishnan 2.Tmt. G.Amutha W/o. Ganasekaran 3.Thiru. M.Inthira W/o. A.N.N.Mahesbabu

1	2	3	4	5	6	7	8
			121/2	Dry	Private	250	1.K.Sundaramahalingam 2.Thangiah @ Sundaralingam Pillai 3.Nagarathinam 4. A.R.P.Rengasamy Nayudu 5. K.Raja
4		Kudirai Chanikulam	1/2B5	Wet	Private	816	1. Sivasamy Thevar S/o. (Late). Sivanandithevar 2. Alagumalai S/o. (Late). Sivanandithevar 3. Veluchamy S/o. (Late). Sivanandithevar 4. Alagammal D/o. (Late). Sivanandithevar 5. Veluthai D/o. (Late). Sivanandithevar
5		Palakkapudpatti	2/1A	Dry	Private	1903	Usha Viyavel W/o. Viyavel
			2/1B	Dry	Private	73	1.Executive Officer,Madurai. Auto Mobiles Co-operative Industries. 2. Commissioner, Panchayat Union, Thirumangalam
			2/2	Dry	Private	355	Bala Krishnan S/o. Periyanan Nadar
			11	Dry	Private	637	Thiyagarajor Mills Management
			15/1C	Dry	Private	812	Thiyagarajor Mills Management
			15/3	Dry	Private	550	Thiyagarajor Mills Management
			16/1	Dry	Private	4450	Thiyagarajor Mills Management
			19/1A	Dry	Private	900	1. Ramarathinam S/o. Kulanthaivel Nadar 2. Moorthyrajan S/o. Kulanthaivel Nadar 3. Vijayan S/o. Kulanthaivel Nadar 4. Ramesh S/o. Kulanthaivel Nadar 5. Boochirajan S/o. Kulanthaivel Nadar
			19/1C1	Dry	Private	2450	1. Ramarathinam S/o. Kulanthaivel Nadar 2. Moorthyrajan S/o. Kulanthaivel Nadar 3. Vijayan S/o. Kulanthaivel Nadar 4. Ramesh S/o. Kulanthaivel Nadar 5. Boochirajan S/o. Kulanthaivel Nadar 6. The India Financial Association of Seventh day Adventist Dharmapuri 7. M.A.P. Bose S/o. Periya Karuppa Thevar

1	2	3	4	5	6	7	8
			19/1C2	Dry	Private	100	Paulraj S/o. Seenithevar
			19/3A1	Dry	Private	250	Boobala Subramaniyan S/o. Sowndara Pandi Nadar
			19/3A2	Dry	Private	550	1. Boobala Subramaniyan S/o. Sowndara Pandi Nadar 2. Narayanasamy Naidu S/o. Renga samy Naidu 3. Jeyanthi W/o. Jeyaraj
			19/4A	Dry	Private	150	Sundarabharathi S/o. Narayanan
			19/4B	Dry	Private	1350	Visagan (Guardian-Bakkirathiammal)
			19/8	Dry	Private	250	1. Sewuga Perumal S/o. Ponnasamy 2. Singaraja S/o. Sewuga perumal 3. Rajesh Kanna S/o. Sewuga perumal
			19/9	Dry	Private	750	Pattumani S/o. Periya samy Nadar
			19/10	Dry	Private	600	1. Pattumani S/o. Periya samy Nadar 2. Panchavarnam W/o. Pattumani

[F. No. NHA/Tech./LA/MK/1/2003]

PRABHAKAR, Dy. Secy.